

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

NSFDC/Pers./00(2)/94/Vol.VI/

Date: 04th October, 2024

OFFICE ORDER

Consequent upon the superannuation of Sh. Rajesh Bihari, CGM, the manpower deployment and work allocation in the Corporation are re-organized as under:

(I) CMD's Secretariat

Smt. Arti Luker, Manager
Sh. Navin Kumar, Assistant Manager
Sh. Birhampal Singh, Driver (SG)
Sh. Dilip Kumar, Assistant

(II) Sh. C. Ramesh Rao, CGM & Appellate Authority: Will oversee functioning of all Departments except those assigned to Dr. K.C. Mahato, GM and Smt. Annu Bhogal, GM.

Smt. Kanta Kumari, Manager

(A) Sh. Sapan Barua, General Manager (Departmental Head-Projects), PD-1, PD-2 and PD-3

1) Sh. R. G. Banker, DGM, Desk In-charge- PD-1 (West Zone, Central Zone, South Zone)

Sh. Dhanpat Singh, Asstt. General Manager
Sh. Ajay Kumar Singh, Manager
Sh. Pramod Kumar Jha, Manager
Sh. Pravesh Kumar, Senior Assistant

Liaison Centre – Mumbai (PD-1)

Sh. K. G. Nath, Deputy Manager
Sh. P. S. Bhosale, Senior Assistant

Liaison Centre – Lucknow (PD-1)

Sh. R. N. Gond, Deputy Manager
Sh. Raj Kumar, Executive
Sh. Rakesh Kumar Ranjan, Assistant

Liaison Centre – Bengaluru (PD-1)

Dr. V.R. Salkute, Asstt. General Manager
Smt. Vijaya Lakshmi B., Assistant Manager
Sh. N. Subramaniam, Assistant

2) **Sh. Amit Bhatia, DGM, Desk In-charge- PD-2 (North, East & North East Zones), VISVAS, SIDBI & NABARD).**

Sh. Nand Kishore, Manager
Sh. Hari Krishan, Deputy Manager
Smt. Promila Awasthi, Deputy Manager
Sh. Pukhraj Meena, Executive
Sh. Chander Prakash- Consultant

Liaison Centre – Kolkata (PD-2)

Sh. H. L. Thanga, Deputy Manager
Sh. Mohan Chandra Nayak, Assistant

(B) **Sh. Thota Satish, DGM, Desk In-charge – PD-3, Coordination, SEED, CLUSTERS, AMRCD, Convergence, CSR & SSE, PM SURAJ**

Sh. Varun Sharma, Asstt. General Manager
Smt. Suman Yadav, Chief Manager
Ms. Manju Devi, Senior Assistant
Sh. Prashant Kumar, Senior Assistant
Sh. Satish Kumar, Senior Assistant
Sh. Baindla Vamshi Krishna - YP (SEED)
Ms. Poonam Thakre, YP (CSR & SSE) (joining in October second week)
Sh. Rohit Thakur, Intern
Sh. Sagar Prasad, DEO (Outsource)

(III) **Sh. David Hrangate, General Manager (CVO) [Departmental Head] HR, Vigilance & ISO**

Smt. Rajni Mongia, Chief Manager [Desk In-charge]
Sh. Sushil Kumar Sharma, Manager
Smt. Poonam Rani, Executive
Sh. Lalit Fulara, Junior Executive
Sh. Rajnish Kumar, Apprentice

(IV) **Dr. K. C. Mahato, General Manager [Departmental Head] Administration & Official Language**

Smt. Archana Mehra, Chief Manager [Desk In-charge OL]
Sh. Hari Bhajan, Manager [Desk In-charge Admn.]
Sh. Surender Kumar, Deputy Manager (OL)
Smt. Sudha, Assistant Manager
Smt. Renu, Assistant Manager
Sh. Kamal Kishore, Executive
Sh. Ganga Saran, Senior Assistant
Sh. Deepak Kumar, Senior Assistant
Sh. Rohtash Kumar, Assistant

JDH

(V) **Sh. Ratikanta Jena, GM & PIO (RTI) - Departmental Head- PM DAKSH, NABARD SKILL, RTI, CPGRAM, NFSC, MIS/IT, Media & Publicity**

Smt. Sarita Singh, Chief Manager
Smt. Harish Raizada, Manager
Sh. Sandeep Kumar, Manager
Ms. Anju Sehgal, Executive
Sh. Prince Kumar - Contract (NFSC)
Sh. Harsh Kashyap, Apprentice

MIS/IT & Media & Publicity

Sh. Sunny Sharma, Deputy Manager
Sh. G. S. Rawal, Deputy Manager
Smt. Rakhi Morwal, Deputy Manager
Smt. Pinki- DEO (Outsource)
Sh. Ajay, Computer Engineer Contract (Outsource)

(VI) **Smt. Annu Bhogal, GM (Departmental Head) Finance, Corporate Services, Audit, Legal.**

Finance

Sh. Manjeet Singh Chhatwal, DGM (Desk In-charge)
Sh. Mahesh Chand, Chief Manager
Sh. Garvit Nagpal, Chief Manager
Sh. Neeraj Maheshwari, Chief Manager
Ms. Mamta Kumari Gupta, Manager
Smt. Rachna Devi, Junior Executive
Smt. Pooja Rani, Junior Executive
Sh. Pankaj, Junior Executive
Sh. Tejavat Venkatesh, Senior Assistant
Sh. Mohan Prasad, Senior Assistant

CS, Audit, Legal

Sh. Tarun Kumar Dudeja, Assistant Manager
Sh. Sudhish, DEO (Outsource)

(VII) **Manpower at MOSJ&E**

Sh. Mahesh Chand, Assistant Manager
Sh. Tapeswar Pal, Driver (SG)

(VIII) **Other Multi-Tasking Staff (Assistant/Jr. Assistant/Jr. Assistant (SG) & Outsource) & posted in different departments at Head Office:**

Name	Duties / Assignment assigned with.	Reporting Officer
Sh. Reet Lal Paswan, Assistant	Attend to Sh. C. R. Rao, CGM, Dr. K.C. Mahato, GM, Sh. Ratikanta Jena, GM, Smt. Annu Bhogal, GM, Sh. Sapan Barua (Core-2- center Block)	Sh. Ratikanta Jena

Sh. Jai Kishan, Assistant Smt. Dinu (Outsource)	Attend to Sh. R.G. Banker, DGM, Sh. Thota Satish, DGM, Sh. Amit Bhatia, DGM and all officials in Cubicles of Core-2- center block.	Sh. R.G. Banker
Sh. Sonu, MTS (Outsource)	Attend to Sh. Manjeet Singh, DGM and all Finance officials in cubicles of Core-2- center block.	Sh. Manjeet Singh Chhatwal
Smt. Jyoti Rani, Jr. Assistant (SG)	Attend to all officials of HR/Admin/MIS.	Sh. David Hrangate
Sh. Ashish Pandey, MTS (Outsource)	Dispatch and other MTS work of HR/ Admin / MIS.	Sh. Hari Bhajan


(IX) Sh. David Hrangate, GM, Sh. Ratikanta Jena, GM, Sh. Sapan Barua, GM will report to Sh. C. Ramesh Rao, CGM. Dr. K.C. Mahato, GM and Smt. Annu Bhogal, GM will report to CMD directly.

(X) Sh. R. G. Banker, DGM, Sh. T. Satish, DGM and Sh. Amit Bhatia, DGM will report to Sh. Sapan Barua, GM.

(XI) All officers and staff of the Desk/Department are advised to handover and takeover their charges immediately under intimation to HR department.

This issues with the approval of the Competent Authority.

Hindi version will follow.


(David Hrangate)
General Manager (HR)

Distribution:

1. Concerned Officials.
2. CMD Secretariat, CGM Office.
3. All General Manager, Department Heads, Desk In-charges.
4. All Liaison Centres, Hindi Cell, Notice Board.

नेशनल शेड्यूलड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दिल्ली
NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION, DELHI

No: NSFDC/Pers./00(2)/94/Vol-VI

27th June, 2025

OFFICE ORDER

It has been decided that Smt Promilla Awasthi, DM (PD-1), Sh Kamal Kishore, Executive (Admn) and Sh Satish Kumar, Sr Asstt (PD-1) shall be temporarily assisting the Skill Trg Desk till 15/07/2025 for completing the time bound work relating to PM- DAKSH Yojana.

The above officials shall be reporting to Sh Ratikant Jena, GM (GBM) for further duty instructions during the said period.

This issue with the approval of Competent Authority.

Hindi version will follow.



(David Hrangate)
General Manager (HR)

Distribution:

- (i) Concerned Officials
- (ii) CMD's Secretariat/ CGM
- (iii) All Departmental Head/All Desk In-charges
- (iv) Hindi Cell/Notice Board.

नेशनल शेड्यूलड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दिल्ली
NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION,
DELHI

सं.: एनएसएफडीसी/का./00(2)/94/खंड-VI


1 जुलाई, 2025

कार्यालय आदेश/OFFICE ORDER

डॉ. के. सी. महतो, महाप्रबंधक (प्रशासन एवं राजभाषा) की दिनांक 30.06.2025 को सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप यह निर्णय लिया गया है कि श्री डेविड रांगते, महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी) अपने वर्तमान कार्यभार के अतिरिक्त, तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रशासन एवं राजभाषा विभाग का कार्यभार भी देखेंगे।

It has been decided that, consequent upon the superannuation of Dr. K. C. Mahato, General Manager (Administration & Official Language), on 30.06.2025 (A/N), Shri David Hrangate, General Manager (HR) & CVO, shall, in addition to his existing responsibilities, look after the work of Administration & Official Language Department with immediate effect, until further orders.

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This issues with the approval of the Competent Authority.



(C. Ramesh Rao)

मुख्य महाप्रबंधक / Chief General Manager

वितरण/Distribution:-

- (i) संबंधित कार्मिक /Concerned officials
- (ii) अप्रति सचिवालय CMD's Secretariat, सभी महाप्रबंधक All GMs, सभी डेस्क प्रभारी All Desk In-charges
- (iii) सभी संपर्क केंद्र All Liaison Centres, हिंदी सेल Hindi Cell, सूचना पट्ट /Notice Board.

NSFDC

Internal Note (Projects)

NSFDC/PROJ/GM/25-26

Dated : 21.07.2025

For smooth functioning and timely discharge of day to day tasks related to Projects, it has been decided that the States/UTs/Zones of Projects shall be divided between two DGMs, as was being followed in recent past.

2. Accordingly, Shri Rajnish Banker, DGM I shall look after SCAs/Banks/RRBs/PSBs/Coop. Banks/Societies of South, Central and West Zone, collectively designated as PD 1, while Shri Amit Bhatia, DGM II shall look after SCAs/Banks/RRBs/PSBs/Coop. Banks/Societies of North and East Zone, collectively designated as PD 2. The scope of work of present PD 2 to generate demand, follow up for dues etc. is thus done away with. Accordingly, team members are assigned as below:

PD 1-DGM I - Shri Ajay Singh, Mgr., Shri P.K.Jha, Mgr. Shri Pravesh Kumar, SA, Shri Satish Kumar SA, Shri Mahesh Chand, AM.

PD 2-DGM II - Shri Nandkishore, Mgr. Smt. Promila Awasthi, DM Shri P. Meena. Executive.

This issues with the approval of the Competent Authority.




(SAPAN BARUA)
General Manager (Proj.)

Distribution :

- i) Shri R.G.Banker, DGM PD 1.
- ii) Shri Amit Bhatia, DGM PD 2.
- iii) All team members of PD 1 & 2.

Copy for information : i) CGM
ii) CMD Secretariat

 iii) GM, HR


CM (K)


नेशनल शेड्यूलड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दिल्ली
National Scheduled Castes Finance & Development Corporation, Delhi

No.NSFDC/Pers./00(2)/94/Vol.VI

Date: 11.11.2025

OFFICE ORDER

In partial modification of the Transfer and Post Office Order dated 28.10.2024, the manpower deployment and work allocation in Operations Vertical (Projects Department) are re-organized as under:

2. It has been decided that in order to effectively implement the MoSJ&E piloted inter-linked initiatives of TULIP and NAMAHA, the Projects (South) Desk comprising of SCAs/CAs of AP, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu and Puducherry stands withdrawn from Sh. Rajnish G. Banker, DGM (PD-1) and assigned to Sh. Amit Bhatia, DGM (PD-2).

Sh. Rajnish G. Bankar, DGM (PD-1) is advised to handover the charge of South Desk to Sh. Amit Bhatia, DGM (PD-2). He is also advised to handover the charge of the Dairy Animal Capacity Building Programme with National Dairy Development Board (NDDB) to Sh. Amit Bhatia, DGM PD-2.

3. Sh. Ajay Kumar Singh, Manager and Sh. Pravesh Kumar, Sr. Assistant, presently looking after Projects (South Zone) PD-1 will now report to Sh. Amit Bhatia, DGM (PD-2).

4. Sh. R.G Banker, DGM (PD-1) will now look after Projects (Central & West Desks), Exhibitions, Fairs, Awareness camps, Handloom and Handicraft Clusters, TULIP, NAMAHA, mobilization of NABARD grants for Gram Dukans, Carts, Rural Haats/Rural Marts in identified locations, a dedicated assignment of convergence of NSFDC loans with subsidies under selected schemes of Ministry of Agriculture & Farmers Welfare and any other tasks assigned by the management from time to time.

5. The above orders come into force with immediate effect. The concerned officials are advised to ensure strict compliance and immediately hand over and take over their charges under intimation to HR Department.

This issue with the approval of the Competent Authority.

Hindi Version will follow.


(David Hrangate)

General Manager (HR & Admn)

Distribution:

1. Concerned Officials, CMD Sectt., CGM, All GMs.
2. All Desk-In-Charges, Liaison Centres, Hindi cell.

नेशनल शेड्यूलड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दिल्ली
National Scheduled Castes Finance & Development Corporation, Delhi

No.NSFDC/Pers./00(2)/94/Vol.VI

Date: 27.11.2025

OFFICE ORDER

In partial modification of the Transfer and Post Office Order dated 28.10.2024, the manpower deployment and work allocation in Projects Department are re-organized as under:

2. In order to enable Sh Amit Bhatia, DGM (PD-2) to concentrate more on the three Project Zones - South, North and North East besides the AMRCD functions, it has been decided that VISVAS work, which is aligned with Portal based IT claims/validation, shall now be looked after by Shri Varun Sharma, for gradual development of second line of officers in Projects Dept. For execution of the said task i.e. VISVAS, Shri Varun Sharma shall report to Sh Amit Bhatia, DGM(PD-2) and all files routed through the latter till further orders.
3. Sh. Pukhraj Meena, Executive and Sh Chander Prakash, Consultant will report to Sh. Varun Sharma AGM (PD-3) for VISVAS related work in addition to their present assignment.

The above orders come into force with immediate effect. The concerned officials are advised to ensure strict compliance and take over their charges under intimation to HR Department.

This issue with the approval of the Competent Authority.

Hindi Version will follow.



(David Hrangate)
General Manager (HR)

Distribution:

1. CMD Sectt., CGM, All GMs.
2. All Desk-In-Charges, Liaison Centres,
3. Hindi Cell, Notice Board

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

NSFDC/Pers./00(2)/94/Vol.VI/

Date: 19th December, 2025

OFFICE ORDER

Sh. Gulshan Kumar Pahadia, Chief Manager, upon his repatriation from the National Commission for Scheduled Castes (NCSC) vide O/o File No. NCSC-Admn.031/2/2025-ADMN [101894] dated 08.12.2025, has joined the Corporation on 10.12.2025 (F/N).

He is hereby posted in Project Desk-1 with immediate effect and is directed to report to Sh. Rajnish G. Banker, DGM, PD-1 (for the works related to Project Desk and Exhibition, Fairs, Awareness Camps, Cluster, TULIP, NAMAH etc.) for further duty instructions.

This issues with the approval of the Competent Authority.

Hindi version will follow.



(C. Ramesh Rao)
Chief General Manager

Distribution:

1. Concerned Officials.
2. CMD Secretariat, CGM Office.
3. All General Manager, Department Heads, Desk In-charges.
4. All Liaison Centres, Hindi Cell, Notice Board.

नेशनल शेड्यूलड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दिल्ली
NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION,
DELHI

सं.: एनएसएफडीसी/का./00(2)/94/खंड-VI

17 अप्रैल, 2025

कार्यालय आदेश/OFFICE ORDER

कार्यालय आदेश संख्या एनएसएफडीसी/का./00(2)/ खंड-VI दिनांक 28/10/2024 के अनुक्रम में, कार्य आवंटन और रिपोर्टिंग में निम्नलिखित आंशिक संशोधन तत्काल प्रभाव और अगले आदेश तक आदेशित किए जाते हैं:

In continuation of the Office order No. NSFDC/Pers/00(2)/Vol-VI dated 28/10/2024, following partial modification in work allocations and reporting is hereby ordered with immediate effect and until further orders:

1. श्री रजनीश गोविंद बनकर, उप महाप्रबंधक, परियोजना डेस्क-1 के अपने कार्य के अलावा, "प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों और हाटों/लाभार्थियों के लिए जागरूकता शिविरों/ "ट्यूलिप", कपड़ा मंत्रालय (हथकरघा और हस्तशिल्प क्लस्टर) तथा सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय द्वारा सौंपे गए सभी कार्यक्रमों से संबंधित कार्य भी देखेंगे। वह श्री सपन बरुआ, महाप्रबंधक (विभागीय प्रमुख-परियोजना) को रिपोर्ट करेंगे। श्री महेश चंद, सहायक प्रबंधक, श्री सागर प्रसाद, डीईओ (आउटसोर्स) और श्री रोहताश, सहायक (प्रोटोकॉल) उन्हें उक्त कार्यों में सहयोग प्रदान करेंगे।

Shri Rajnish Govind Banker, Deputy General Manager, in addition to his work in Projects Desk-1, will also look after the work relating to Exhibitions/Trade Fairs & Haats /Awareness Camps for beneficiaries/ "TULIP", Ministry of Textile (Handloom and Handicraft clusters) and all events assigned by MOSJ&E. He will report to Shri Sapan Barua, General Manager (Departmental Head-Projects). Shri Mahesh Chand, Asstt. Manager, Shri Sagar Prasad, DEO (outsourced) and Shri Rohtash, Assistant (Protocol) will assist him in the above assignments.

2. श्री रजनीश गोविंद बनकर, उप महाप्रबंधक (परि-1), श्री अमित भाटिया, उप महाप्रबंधक (परि-2), श्री वरुण शर्मा, सहायक महाप्रबंधक (परि-3) और श्रीमती सुमन यादव, मुख्य प्रबंधक (परि-4) श्री सपन बरुआ, महाप्रबंधक (विभागीय प्रमुख-परियोजना) को रिपोर्ट करेंगे। सभी संपर्क केंद्र श्री अमित भाटिया, डेस्क प्रभारी (परि-2) को रिपोर्ट करेंगे। श्री सपन बरुआ, महाप्रबंधक (परियोजना) श्री सी. रमेश राव, मुख्य महाप्रबंधक को रिपोर्ट करेंगे।

Shri Rajnish Govind Banker, DGM(PD-1), Shri Amit Bhatia, DGM(PD-2), Shri Varun Sharma, AGM(PD-3) and Smt. Suman Yadav, Chief Manager (PD-4) will report to Shri Sapan Barua, GM (Departmental Head-Projects). All Liaison Centres will report to Shri Amit Bhatia, Desk-In-charge (PD-2). Shri Sapan Barua, GM(Projects) will report to Shri C.Ramesh Rao, CGM.

जारी/contd..2/-

21

3. श्रीमती पिकी, डीईओ (आउटसोर्स) "प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों और हाटों/लाभार्थियों के लिए जागरूकता शिविरों/"ट्यूलिप", हथकरघा और हस्तशिल्प समूहों से संबंधित सोशल मीडिया कार्यों के लिए श्री रजनीश गोविंद बनकर, उपमहाप्रबंधक (परि-1) को रिपोर्ट करेंगी। सोशल मीडिया से संबंधित अन्य सभी कार्यों के लिए, श्रीमती पिकी, श्री वरुण शर्मा, सहायक महाप्रबंधक (परि-3) को रिपोर्ट करना जारी रखेंगी।

Smt. Pinky, DEO(outsource) will report to Shri Rajnish Govind Banker, DGM (PD-1) for Social Media work relating to "Exhibitions/Trade Fairs & Haats/Awareness Camps for beneficiaries/"TULIP", Handloom and Handicraft clusters. For all other works relating to Social Media, Smt. Pinky will continue to report to Shri Varun Sharma, AGM(PD-3).

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This issues with the approval of the Competent Authority.


(David Hrangate) 13/4

महाप्रबंधक (मा.सं.)/ General Manager(HR)

वितरण/Distribution:-

- (i) संबंधित कार्मिक /Concerned officials
- (ii) अप्रति सचिवालय/CMD's Secretariat/ मुख्य महाप्रबंधक/CGM/ सभी महाप्रबंधक/All GMs/
सभी डेस्क प्रभारी/All Desk In-charges
- (iii) सभी संपर्क केंद्र/All Liaison Centres/ हिंदी सेल/Hindi Cell/ सूचना पट्ट /Notice Board.

नेशनल शेड्यूलड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दिल्ली
NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION, DELHI

No: NSFDC/Admn/2025/ e-office 53342

10th October, 2025


OFFICE ORDER

It has been decided that Smt Archana Mehra, Chief Manager (OL) in addition to her present assignment of OL will also look after the charge of RMC as Record Officer. Accordingly, Smt Archana Mehra is advised to take over the charge of RMC from Sh Hari Bhajan, Mgr (Admn) with immediate effect.

2. Smt Sudha, AM and Smt Jyoti Rani, Jr. Asst. (SG) in addition to their present duty will also assist Smt Archana Mehra, CM for work relating to RMC.

This issue with the approval of Competent Authority.

Hindi version will follow.


(David Hrangate)
General Manager (HR)

Concerned officials

CC:

- (i) CMD's Secretariat/ CGM
- (ii) All Departmental Head/All Desk In-charges
- (iii) Hindi Cell/Notice Board

National Scheduled Castes Finance and Development Corporation
Delhi

No.NSFDC/1(108)/90-Pers./Vol.II


11th November, 2025

OFFICE ORDER

Consequent upon superannuation and retirement of Dr. K.C. Mahato, General Manager-cum-Transparency Officer from the services of NSFDC, Shri David Hrangate, General Manager (HR & Admn.) is hereby appointed as 'Transparency Officer' under the Right to Information Act, 2005 with immediate effect.

This issues with the approval of the Competent Authority.

Hindi version will follow.


(Rajni Mongia)
Chief Manager (HR)

Distribution:

- (i) Concerned Official
- (ii) CMD Sectt./CGM/All HoDs/All Desk In-charges
- (iii) LCs/Notice Board/Hindi Cell